

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल 2014—वैशाख 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2014

फा. क्र. 17(ई)-61-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला बैतूल हेतु लोक सभा निर्वाचन, 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिए संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 15 मार्च 2014 से दिनांक 16 मई 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

लोक सभा निर्वाचन, 2014 हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव (जिला बैतूल)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है. क्षेत्र का नाम	किसके कार्य हेतु			
					सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट	स्थैतिक	उड़न-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	मतदान क्षेत्र के क्रमांकों का विवरण	निगरानी टीम	दस्ता
1	श्री सुभाष खातरकर	सहायक प्राध्यापक जयवंती हक्सर महाविद्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-14	129-मुलताई	94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 107 (कुल-14).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	डॉ. प्रणय तिवारी	सहायक प्राध्यापक जयवन्ती हॉक्सर महाविद्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	129-मुलताई			
3	डॉ. एस. बी. हसन	प्राध्यापक जयवन्ती हॉक्सर महाविद्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	129-मुलताई			
4	श्री डी.एस. रघुवंशी	व्याख्याता शासकीय पॉलीटेक्नीक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	129-मुलताई			
5	श्री एस. पी. सैनी	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-16	130-आमला	174, 172, 173, 170, 171, 204, 169 (कुल-07).		
6	श्री आर. एस. गौतम	सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-20	130-आमला	198, 216, 217, 219, 218, 201, 202, 203, (कुल -08).		
7	श्री अशोक दाभाड़े	सहायक प्राध्यापक जयवन्ती हॉक्सर महाविद्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-22	130-आमला	237, 238, 239, 241, 240, 242, 247 246 (कुल-08).		
8	श्री अशोक शुक्ला	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर- पालिका, आमला.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	130-आमला			
9	श्री एस. के. डहेरिया	व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्नीक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	130-आमला			
10	श्री एस. एस. मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-1	131-बैतूल	8, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 11, 10, 09, (कुल-10).		
11	श्री आर.के. चौलकर	वरिष्ठ व्याख्याता मैकेनिकल शासकीय पॉलिटेक्नीक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-2	131-बैतूल	16, 13, 14, 15, 07, 05, (कुल-06).		
12	श्री एन. के. साहू	व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्नीक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-25	131-बैतूल	253, 254, 255, 256, 257, 252, 250, 251, (कुल-08).		
13	श्री पवनसिंह परिहार	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	131-बैतूल			
14	श्री एम. ए. खान	खनि अधिकारी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	131-बैतूल			
15	श्री सुधाकर कुबडे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बैतूलबाजार.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	131-बैतूल			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	श्री खुशाल देवधरे	सहायक प्राध्यापक जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	131-बैतूल			
17	श्री के. के. सोनी	सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई-1, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-21	132-घोड़ाडोंगरी	201, 211, 212, 221, 222, 223, 230, 213, 179, (कुल-09).		
18	श्री डी. आर. खुरैया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-24	132-घोड़ाडोंगरी	253, 254, 255, 252, 244, 243, 245, 231 (कुल-08).		
19	डॉ. राजकमल मिश्रा	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, शाहपुर कार्यालय, उप संचालक, पशु चिकित्सालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-25	132-घोड़ाडोंगरी	250, 267, 268, 265, 249, 269, 248, 247, 246, 128, (कुल-10).		
20	श्री पी. एस. खेंगर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, चिचोली.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132-घोड़ाडोंगरी			
21	श्री आर.के. धुर्वे	व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्निक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132-घोड़ाडोंगरी			
22	श्री सुरेशचन्द्र प्रधान	वन परिक्षेत्र अधिकारी, पश्चिम वनमंडल, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-3	133-भैसदेही	22, 20, 21, (कुल-03).		
23	श्री एस. आर. रैकवार	वन परिक्षेत्र अधिकारी, ताप्ती रेंज, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-12	133-भैसदेही	99, 97, 98, 96, 95, 88, 92, 81, 80, 79, 93, 94, (कुल-12).		
24	श्री मो. अफजल खान	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भीमपुर.	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-19	133-भैसदेही	206, 207, 181, 208, 209, 179, 180, 178, 177, 160, 176, 175, (कुल-12).		
25	श्री आर. एम. कुरैशी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-23	133-भैसदेही	210, 211, 214, 215, 212, 213, 216, 217, 220, 221, (कुल-10).		
26	श्री व्ही.पी. सिंह	सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-31	133-भैसदेही	272, 271, 274, 270, 273, 269, 268, 267, (कुल-08).		
27	श्री एन. के. चौधरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद् भैसदेही.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	133-भैसदेही			
28	श्री एस. के. दिवाकर	व्याख्याता शासकीय पॉलिटेक्निक, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	133-भैसदेही			
29	श्री रामनाथ राठौर	बी.आर.सी. चिचोली	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	133-भैसदेही			
30	श्री आर. डी. तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	133-भैसदेही			

लोक सभा निर्वाचन 2014 हेतु नियुक्त स्थैतिक निगरानी टीम एवं उड़नदस्ता के अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव (जिला बैतूल)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है. क्षेत्र का नाम	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	किसके कार्य हेतु		
						स्थैतिक निगरानी टीम	उड़न दस्ता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री सुरेश कुमार मालवीय	मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय, सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	129-मुलताई	129-मुलताई	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
2	श्री जयपाल करकटा	उप यंत्री, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	129-मुलताई	129-मुलताई	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
3	श्री खेमचंद मरावी	उपयंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा. यां. सेवा प्रभातपट्टन.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	129-मुलताई	129-मुलताई	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
4	श्री आत्माराम मालवी	उपयंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन उप संभाग, मुलताई.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	129-मुलताई	129-मुलताई	-	उड़नदस्ता	
5	श्री एल. डी. बचले	उपयंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन उप संभाग, मुलताई.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	129-मुलताई	129-मुलताई	-	उड़नदस्ता	
6	श्री एस. डी. कुरैशी	उपयंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन उप संभाग, मुलताई.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	129-मुलताई	129-मुलताई	-	उड़न दस्ता	
7	श्री लक्ष्मण इन्दौरकर	पंचायत समन्वयक अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत, आमला.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	130-आमला	130-आमला	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
8	श्री शिशुपाल झरबड़े	पंचायत समन्वयक अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत, आमला.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	130-आमला	130-आमला	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	श्री नितीश पानकर	उपयंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से., आमला.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	130-आमला	130-आमला	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
10	श्री आर. आर. शाक्य	उपयंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, आमला.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	130-आमला	130-आमला	-	उड़नदस्ता	
11	श्री श्यामराव वाघमारे	पंचायत समन्वयक अधिकारी, कार्यालय, जनपद पंचायत, आमला.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	130-आमला	130-आमला	-	उड़नदस्ता	
12	श्री एच. के. माथनकर	सहायक मानचित्रकार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.या.से., आमला.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	130-आमला	130-आमला	-	उड़नदस्ता	
13	श्री सी. एल. डोंगरे	सहकारिता निरीक्षक, कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्था, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	131-बैतूल	131-बैतूल	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
14	श्री एम. के. जैन	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	131-बैतूल	131-बैतूल	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
15	श्री एल. एस. बेनुसेवक	श्रम निरीक्षक, कार्यालय श्रम पदाधिकारी, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	131-बैतूल	131-बैतूल	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
16	श्री उजाला सिंह	उप यंत्री, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	131-बैतूल	131-बैतूल	-	उड़नदस्ता	
17	श्री राकेश प्रसाद त्रिपाठी	खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, कार्यालय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	131-बैतूल	131-बैतूल	-	उड़नदस्ता	
18	श्री चेतन भावसार	मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	131-बैतूल	131-बैतूल	-	उड़नदस्ता	
19	श्री हरिओम गुप्ता	सहकारिता निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक, सहाकारी संस्थाएं, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	132-घोड़ाडोंगरी	132-घोड़ाडोंगरी	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	श्री मंगलदास पाल	डिप्टी रेंजर, कार्यालय, वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	132-घोड़ाडोंगरी	132-घोड़ाडोंगरी	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
21	श्री जे. एस. ठाकुर	उपयंत्रि, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	132-घोड़ाडोंगरी	132-घोड़ाडोंगरी	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
22	श्री पी. आर. नरवरे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत, शाहपुर.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	132-घोड़ाडोंगरी	132-घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
23	श्री पी. आर. गलफट	उपयंत्रि, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, घोड़ाडोंगरी.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	132-घोड़ाडोंगरी	132-घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
24	श्री विवेक तुमराम	उपयंत्रि, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां.सेवा, उप संभाग, घोड़ाडोंगरी.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	132-घोड़ाडोंगरी	132-घोड़ाडोंगरी	-	उड़न दस्ता	
25	श्री रघुवीरसिंह खरे	उपयंत्रि, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां. सेवा, भैसदेही.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	133-भैसदेही	133-भैसदेही	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
26	श्री शिवशंकर डोंगरे	सहकारिता निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	133-भैसदेही	133-भैसदेही	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
27	श्री के. एम. प्रसाद	उपयंत्रि, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां.सेवा, भीमपुर.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	133-भैसदेही	133-भैसदेही	स्थैतिक निगरानी टीम.	-	
28	श्री स्वदेश मिश्रा	उपयंत्रि, कार्यालय, जनपद पंचायत, भैसदेही.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	133-भैसदेही	133-भैसदेही	-	उड़नदस्ता	
29	श्री सुरेश कुमार सचान	उप वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र ताप्ती, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	133-भैसदेही	133-भैसदेही	-	उड़नदस्ता	
30	श्री एस. के. लोधी	श्रम निरीक्षक, कार्यालय श्रम पदाधिकारी, बैतूल.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	133-भैसदेही	133-भैसदेही	-	उड़नदस्ता	